

**\*प्रेस नोट- थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 26.06.2022\***

**\*थाना खेसरहा पुलिस द्वारा अभियुक्त के पास से 28 शीशी बन्टी बबली देशी शराब नजायज बरामद किया।\***

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, श्री देवी गुलाम क्षेत्राधिकारी बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण, श्री अशोक कुमार वर्मा थानाध्यक्ष खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 26.06.2022 को उ0नि0 श्री रामकुमार यादव मय हमराह द्वारा अभियुक्त के पास से 28 शीशी बन्टी बबली देशी शराब नजायज बरामद किया गया जिसके क्रम में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 69/2022 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही किया गया।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-\***

1. कासिफ रजा s/o स्व0 हसन रजा ग्राम छिबरा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर उम्र करीब 40 वर्ष।

**\*बरामदगी का विवरण -\***

28 शीशी बन्टी बबली देशी शराब नजायज बरामद किया गया।

**\*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\***

1. उ0नि0 श्री रामकुमार यादव, प्रभारी चौकी सकारपार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
2. हे0का0 विनोद तिवारी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
3. का0 सत्येन्द्र यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
4. का0 अंकित वर्मा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

**प्रेस नोट-थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थ नगर दिनांक 26.06.2022**

**महिला सशक्तिकरण व साइबर हेल्प लाइन के क्रम में महिला बीट पुलिस अधिकारी व महिला हेल्प डेस्क अधिकारी द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान**

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 26.06.2022 को श्री बलजीत कुमार राव प्रभारी निरीक्षक थाना पथरा बाजार सिद्धार्थनगर के निर्देशन में महिला बीट पुलिस अधिकारी महिला आरक्षी प्रतिमा दूबे एवं महिला रोशनी यादव यादव द्वारा महिलाओं, बच्चों के साथ महिला सम्बन्धी अपराध, महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में ग्राम बिशुन पुरवा में जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया तथा महिलाओं व बच्चियों को महिला सम्बन्धी अपराध एवं साइबर सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड एवं साइबर हेल्प लाइन 1930 के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

**प्रेस नोट - दिनांक 26.06.2022 थाना महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर  
आज दिनांक 26-06-2022 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई- किरण का आयोजन  
कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।**

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 26-06-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 04 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई । परामर्श के बाद 01 पत्रावाली का सफल निस्तारण संभव हुआ । तथा 04 पत्रावली में अग्रिम दिनांक लगा है । 01 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान , महिला आरक्षी प्रतीची शुक्ला, महिला आरक्षी अनिशा सरोज व महिला आरक्षी नेहा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

**निस्तारित पत्रावली का विवरण :-**

1. सालेहा पत्नी रियाजुद्दीन साकिन सोनबरसा पोस्ट बर्डपुर थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर ।